



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 172-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018 (ASVINA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्टूबर, 2018

संख्या 16/139/2017-2IW.— हरियाणा नहर तथा जल-निकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा नहर तथा जल-निकास अधिनियम, 1974 (1974 का 29), की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इस के द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाए, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उपान्तिक शीर्ष में, "परिभाषा", शब्द के स्थान पर "परिभाषाएँ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 7 में, "तिथि जिस का" शब्दों के बाद, "तथा स्थान जहाँ" शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
ग्रामीणों की मांग विवरणी (खतौनी) तक पहुँच धारा 65.—
"43. ग्राम पटवारी के पास रखी मांग विवरणी (खतौनी), उन व्यक्तियों, जो जल प्रभारों के भुगतान के लिए दायी हैं, के निरीक्षण के लिए ऐसी तिथि, समय तथा स्थान पर, जो पटवारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, खुली होगी।
5. उक्त नियमों में नियम 75 में, "दो रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों में नियम 109 में, "तिथि तथा स्थान" शब्दों के स्थान पर, "तिथी, स्थान तथा समय", शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
7. उक्त नियमों में, नियम 111 में, अन्त में, "और समान के तामिल की पावती या तो लम्बरदार या चौकीदार इत्यादि से सत्यापित की जाएगी" शब्द जोड़े, जोड़े जाएंगे।
8. उक्त नियमों में प्रारूप IV में, "19-से. 19-" अंको, अक्षर तथा चिह्न के स्थान पर, "20-से 20-" अंक, अक्षर तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त नियमों में, प्रारूप V में, "19" अंको के स्थान पर, "20" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप VI में,—

- (i) दो बार आने वाले "19" अंको के स्थान पर, "20" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) "नहर स्टेशन" शब्दों के स्थान पर "मंडल नहर अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा, सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 2018

No. 16/139/2017-2IW.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (29 of 1974), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Irrigation and Water Resources Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 (hereinafter Called the said rules), in the rule 2, in the marginal heading, for the word "Definition", the words "Definitions" Shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 7, in the fifth line, after the words "the date on which", the words "and the place where" shall be inserted.
4. In the said rules, for rule 43, the following rule shall be substituted, namely:-
"43. Demand statement (Khatauni) to be accessible to villagers. Section 65.— The demand statement (Khatauni) with the Patwari of the village shall be opened at such place, date and time as may be specified by the Patwari for inspection of the person who are liable to pay charges".
5. In the said rules, in rule 75, for the words "two rupees", the words "two hundred rupees" shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 96, for the word "summons", wherever occurring, the word "summon" shall be substituted.
7. In the said rules, in rule 109, for the word "the date and place", the words and sign "the date, time and place" shall be substituted.
8. In the said rules, in rule 111, the following words shall be added at the end, namely:-
"and shall be attested either by Lamberdar or Chowkidar of the village".
9. In the said rules, in Form IV, for the figure "19", occurring twice, the figure "20" shall be substituted.
10. In the said rules in Form V, for the figure "19", the figure "20" shall be substituted.
11. In the said rules, in Form VI,-
 - (i) for the figure "19", occurring twice, the figure "20" shall be substituted; and
 - (ii) for the words "Canal Station", the words "Divisional Canal Officer" shall be substituted.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Irrigation and Water Resources Department.